

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 828 /XXVIII(1)/2019-08(मे0का) TC / 2019
देहरादून : दिनांक 25 जून, 2019

अधिसूचना
नियुक्ति (संशोधन)

उत्तराखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के अन्तर्गत सृजित/रिक्त पदों के सापेक्ष उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर शासन की अधिसूचना संख्या- 281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 के माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर अस्थाई रूप से राजकीय मेडिकल कालेजों में नियुक्ति प्रदान की गयी है।

2- इस संबंध में सम्यक विचारोपरान्त उक्त अधिसूचना संख्या- 281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 में आंशिक संशोधन करते हुये निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों को तालिका के कॉलम-5 में उल्लिखित मेडिकल कालेज में तैनात/नियुक्ति प्रदान की जाती है-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	विभाग का नाम	पूर्व तैनाती	वर्तमान तैनाती
1	2	3	4	5
1	डा० शोभा वी	ऐनेस्थिसिया	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून
2	डा० जया शर्मा	साईकेट्री	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून
3	डा० जितेन्द्र सिंह	ऐनेस्थिसिया	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून
4	डा० मीनाक्षी सिंह	आब्स एण्ड गायनी	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून
5	डा० पवनीश कुमार	आर्थोपेडिक्स	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	राजकीय दून मेडिकल कालेज, देहरादून
6	डा० पंकज वर्मा	जनरल मेडिसिन	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी
7	डा० वर्षा गंगवार	आब्स एण्ड गायनी	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी
8	डा० नितिन जोशी	फिजीकल	राजकीय मेडिकल	राजकीय मेडिकल

Print

		मेडिसन	कालेज, श्रीनगर	कालेज, हल्द्वानी
9	डा0 अंशुल शर्मा	फिजियोलॉजी	राजकीय मेडिकल कालेज, श्रीनगर	राजकीय मेडिकल कालेज, हल्द्वानी

3:- उक्त अभ्यर्थी 15 दिन के भीतर अपने वर्तमान तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे।


4:- अधिसूचना संख्या- 281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 में उल्लिखित शेष प्रतिबन्ध/शर्तें यथावत रहेंगी।

(नितेश कुमार झा)
सचिव

संख्या-828 /XXVIII(1)/2019-08(मे0का)TC / 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल नैनीताल/पौड़ी।
3. सचिव, उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड को उनके पत्र संख्या-उ0स0चि0 से0च0बो0/परी0/47/2018-19(II)/117 दिनांक 28 फरवरी, 2019 के क्रम में।
4. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित की अधिसूचना संख्या- 281/XXVIII(1)/2019-08(मे0का)/2019 दिनांक 08 मार्च, 2019 के क्रम में सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुडकी (हरिद्वार) को आगामी गजट में प्रकाशनार्थ।
6. सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. प्राचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, दून/हल्द्वानी/श्रीनगर/अल्मोडा।
8. संबंधित अभ्यर्थियों को संलग्न सूची के अनुसार पंजीकृत डाक द्वारा।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. मीडिया सेंटर, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. विभागीय आदेश पुस्तिका।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिव शंकर मिश्रा)
अनुसचिव